Dhanuka Agritech Limited



07, July, 2021

Listing Department National Stock Exchange of India Limited Listing Exchange Plaza, Plot No. C/1, G. Block, Bandra- Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051

The Department of Corporate Services-

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street. Mumbai- 400 001

Symbol-DHANUKA

Scrip Code: 507717

Subject: Newspaper publication- Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir.

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, We hereby enclosed copies of the following newspaper advertisements published for giving Notice of the 36th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 29th July, 2021 at 11.00 A.M (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means only, containing remote e-Voting details.

S.No	Name of Newspaper	Date of Publications	Edition(s)
1.	Financial Express(In English)	07.07.2021	All Editions
2.	Jansatta-(In Hindi)		All Editions

The above information is also available on the website of the Company at www.dhanuka.com.

Please take the above information in your record.

Thanking you, Yours Faithfully

For Dhanuka Agritech Limited

Jitin Sadana

Company Secretary/ Compliance Officer

FCS-7612

Encl: a/a

MUTUAL

FINANCIAL EXPRESS



Manali Petrochemicals Limited Registered Office: "SPIC House", 88, Mount Road, Guindy, Chennai - 600 032. CIN: L24294TN1986PLC013087; Telefax: 044-2235 1098

Email: companysecretary@manalipetro.com; Website: www.manalipetro.com

NOTICE

Request has been received for issue of Duplicate Share Certificates in lieu of Certificate reported lost and not traceable as per details given below:

Folio No.	Name of the Shareholder	Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
B0095418	Rajendra Prasad Lath and Sons	26657	33458925-33459674	750
A0081587	Suraj Ratan Maheswari	9463	28352215-28352514	300
B0052476	Rachana B Sanghvi Jt. Bhupendra C Sanghvi	18857	31080962-31081261	300

15 days failing which Company will proceed to issue the duplicate share certificates. For Manali Petrochemicals Limited R. Kothandaraman Place : Chennai

Objections if any to the above shall be lodged with the Company within

Company Secretary Date: 06.07.2021

KAYCEE INDUSTRIES LIMITED

Add: Old Kamani Chambers, 32-Ramjibhai Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001 Contact : 22 2261 3521, Website: www.kayceeindustries.com; Email: harshal_patil@kayceeindustries.com

NOTICE is hereby given that the 78th Annual General Meeting (AGM) of Kaycee Industries Limited (the Company) will be held at 12:00 noon on Wednesday, August 04, 2021 through Video Conferencing (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business contained in the notice dated June 26, 2021. The Company has sent the notice of the 78th AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 (FY21) on Tuesday, July 6, 2021 through electronic mode to members whose email addresses are registered with Depository Participant (DPs)/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA), in accordance with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the

Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Annual Report for FY 21 and AGM notice can also be downloaded from the following websites: Company: www.kayceeindustries.in, www.nsdl.com and Stock exchange: www.bseindia.com.

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their vote on all businesses contained in the notice through the e-voting platform of www.evoting.nsdl.com besides providing a facility for voting by electronic means in the AGM. The remote e-voting shall begin at August 01, 2021, Sunday at 9:00 A.M. (IST) and end at August 03, 2021, Tuesday at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of Beneficial Owners naintained by the Depositories as on July 28, 2021 being the cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/electronic voting in the AGM. NSDL will be sending an e-mail with the USER ID and password to any person who has acquired shares and becomes a member of the Company after sending the notice to the members and holding shares as on the cut-off date of July 02, 2021. However if such a person is already registered with NSDL for e-voting then he /she can use the existing user ID and password for casting

Those members who will present in the AGM through VC facility and had not cast their votes through remote e-voting will be provided e-voting facility in the AGM. Those members who had exercised their vote through remote e-voting may participate at the AGM but shall not be entitled to vote again.

Nembers may refer to the AGM Notice for detailed instructions on remote e-voting, part through VC/OAVM, submission of questions prior to AGM, registration as speaker at the AGM, e-voting in the AGM and the frequently asked questions. The e-voting user manual is available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com. In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, members may contact e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 or send a request to Ms. Soni Singh at evoting@nsdl.co.in. For Kaycee Industries Limited

Date: - July 06, 2021 Place:- Mumbai Company Secretary

NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED CIN-U72200DL1999PLC098726 (COMPANY IN LIQUIDATION) **Liquidator:Mr.Alok Kumar Agarwal** RegisteredOffice:Scinda Villa, Sarojini Nagar, New Delhi, DL-110023 Email ID: nstpl@ascgroup.in

THE ASSETS OF THE COMPANY IN LIQUIDATION ARE BEING SOLD ON "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" Date and Time of E-Auction: August 04, 2021 at 02:00 pm IST to 03:00 pm IST (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Sale of Assets and Properties owned by Noida Software Technology Park Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointe by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi Bench, vide order date September 04, 2020 (copy of order received on September 09, 2020). The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform http://www.iquippo.com/

Block	Assets		ervePrice s. Lacs)	EMD Amount (In Rs. Lacs)	Incremental Value (In Rs. lacs)
A	 Land at Greater Noida Unit Plant & Machinery Securities & Financial Assets Scrap of building at Greater Noida Unit 		1118.12 370.19 29.45 8.15	450.50	40.00
		Total:	1525.91	152.59	10.00
В	Land at Greater Noida Unit		1118.12	111.81	10.00
С	Plant & Machinery		370.19	37.01	10.00
D	Securities & Financial Assets		29.45	2.94	1.00
Е	Scrap of Building at Greater Noida Unit		8.15	0.81	0.50

NOTE: Further the above Sale is subject to terms & conditions mentioned in the process document,uploaded on the website of "IQUIPPO SERVICES LIMITED". For details, please visit www.iquippo.com or www.nstpl.co

Last Date for submission of bids: July 28, 2021 E-Auction Date: August 04, 2021 (Wednesday)

Contact No.:8447079462 (Ms. Mahima Tulsian) **Escalation**: If the query is not responded on the phone number given above, then **WhatsApp**

Terms and Condition of the E-auction are as under 1.E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER

THERE IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved service provide

2. The complete and detailed information about the assets of the company are available in the "E-Auction Process Document" as Annexure VI to the document, which is available on the websites i.e. www.iquippo.com. This sale notice must be read along with the "E-Auction

Process Document" to get the complete information. 3. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website www.iquippo.com Contact: Mr.Premsukhat +91-8860041888 & premsukh@iquippo.com (On going to the link www.iquippo.com) intereste bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options (I) Company's name (Noida Software Technology Park Limited), or by, (II) State and proper

4.(a) In case there is at-least one Eligible Bidder for Block A, the e-auction of all other blocks will stand cancelled and EMD received for all other Blocks, if any, will be returned to the

(b) In case, there is no eligible bidder for Block A then E-Auction of Blocks B, C, D & E will be

5. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries

regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges,licenses if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting 8447079462(Ms. Mahima Tulsian). i. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either

through DD/NEFT/RTGS in the Account of "NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED IN LIQUIDATION". Account No.: 0602002100319936. Puniab National Bank. New Delhi, Branch: Okhla, IFSC Code: PUNB0060200, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED IN LIQUIDATION" or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A or Format B as given in the Complete E-Auction process document. 7. The intending bidder should submit the evidence for EMD Depositor Bank Guarantee and

Request Letter for participation in the E-Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valide-mailID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 7:00 PM of July 28, 2021.

8. The Name of the Eligible Bidders will be determined by the Liquidator to participate in e auction on the portal(www.iquippo.com). The e-auction service provider(iQuippo Services Ltd.)willprovideUseridandpasswordbyemailtoeligiblebidders.

9.In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator. 10. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and

the EMD of unsuccessful bidders, who have participated in the bidding process, shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount - EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD -Any Other Amount) by the Successful Bidder.

11. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. And all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property

put on auction. 12. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.

13. After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name. 14. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and

regulations made thereunder.

15. The interested Bidder(s) shall be provided access to the data room ("Data Room") established and maintained by the Company acting through the Liquidator in order to conduct a due diligence of the business and operations of the Company. The interested bidder(s) shall be provided access to the information in the Data Room until the E-Auction Date. The access to, and usage of the information in the Data Room by the interested bidder(s) shall be i accordance with the rules as may be set forth by the Liquidator from time to time.

16. E- auction date & Time August 04, 2021 (Wednesday) from 2.00 p.m. to 3.00 p.m. (With unlimited extension of 5 min)

Alok Kumar Agarwal Liquidator Noida Software Technology Park Limited- in Liquidation IBBIReg. No.:IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137 Addressforcorrespondence: C-100, Sector-2, Noida, U.P.-201301

EmailID:nstpl@ascgroup.in

BARODA MUTUAL FUND

Place: Mumbai

Date : July 06, 2021



NOTICE cum ADDENDUM No. 37 / 2021

NOTICE - CUM - ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT ("SID") AND KEY INFORMATION MEMORANDUM ("KIM") OF BARODA SHORT TERM BOND FUND.

Notice is hereby given that, pursuant to SEBI circular SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, unitholders are requested to take note that the Risk-o-meter of the following scheme of Baroda Mutual Fund ("Baroda MF") stands revised as under:

Name and type of Scheme	Risk-o-meter (Revised)
Baroda Short Term Bond Fund (An open-ended short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration* of the portfolio is between 1 year and 3 years.) (*please refer to page no. 39 of SID)	Upon to Mander the State of St

The above Risk-o-meter is based on evaluation of risk level of the scheme's monthly portfolio as on June 30, 2021.

This Notice cum addendum forms an integral part of the SID & KIM of the above-mentioned scheme of Baroda MF. All other terms and conditions as mentioned in the SID & KIM of the scheme shall remain unchanged. For Baroda Asset Management India Limited

> (Investment Manager to Baroda Mutual Fund) Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks,

read all scheme related documents carefully. For further details, kindly contact:

Baroda Asset Management India Limited

CIN: U65991MH1992PLC069414 501, Titanium, 5th Floor, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063. Tel. No.: +91 22 6848 1000 • Toll Free No.: 1800 267 0189 Visit us at : www.barodamf.com · Email : info@barodamf.com



INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED CIN: L05190KA1921PLC036321

Regd Office: First Floor, Subramanya Arcade, No.12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru – 560 029. Telephone: +91 80 4685 5100 Fax: +91 80 4169 4399; Website: www.irco.com

> NOTICE (For transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education

and Protection Fund (IEPF) Account) NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with

the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("The Rules"), Equity Shares of the Company in respect of which dividend amounts have remained unclaimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

The list of the concerned shareholders is available on the Company's website i.e. www.irco.com under "Investors Service" section.

In case you hold shares in physical form and such shares are liable to be transferred to IEPF, we are required to issue duplicate share certificate(s) for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account as per the Rules and, upon issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s), which stand registered in your names, will stand automatically cancelled. In case shares are in demat form and are liable to be transferred to IEPF, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer to the

Accordingly, the Company would be transferring the equity shares and unpaid/unclaimed dividend as below

Sr. No	Dividend	Date of Declaration	Due Date for Transfer to IEPF	Last Date for Payment to Investors
1	Final Dividend 2013-14	September 12, 2014	October 11, 2021	September 15, 2021

The Company will proceed to transfer the Equity Shares along with unpaid/unclaimed dividend to IEPF without any further notice. Please note that the concerned shareholders can claim both, the unclaimed dividend amount and the shares from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company), along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to them. Please also note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

In case of any queries, the concerned shareholders may contact our Share Transfer Agents viz. TSR Darashaw Consultants Private Limited, Unit: Ingersoll-Rand (India) Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083. Email: csg-unit@tcplindia.co.in Phone: 022 6656 8484 Fax: 022 6656 8494.

Place: Bengaluru Date: July 6, 2021

General Manager- Corp. Finance and Company Secretary

For INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED

P. R. SHUBHAKAR

DHANUKA AGRITECH LIMITED

CIN: L24219DL1985PLC020126 Regd. Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi 110 005

Phone No.: 011-2353 4551-52

Corporate Office: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram-122 002 Phone No.: 0124-4345000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.com

Notice of 36th Annual General Meeting, Remote E-Voting, Book Closure and Record Date for the purpose of dividend for the F.Y 20-21

Annual General Meeting Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Thursday,

29th July, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members. In compliance with these MCA Circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/15 dated 15th January 2021 issued by the SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Company has sent the Notice of the 36" AGM along with the Annual Report 2020-21 on Monday, 05th July, 2021, through electronic mode to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the

The Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 36th

AGM is available on the website of the Company at www.dhanuka.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting Monday, 26th July, 2021 (IST 9.00 a.m.) Wednesday, 28th July, 2021 (IST 5.00 p.m.) End of Remote e-voting The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time; b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company

as on Thursday, 22nd July, 2021 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/

c. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact to Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr.Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542, as provided by CDSL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

 Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically. but shall not be entitled to vote again.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSI helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.como contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDI helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at to free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Book Closure& Record Date

Place: Gurugram (Haryana)

Dated: 05.07.2021

Pursuant to the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Company has fixed Friday, July 16, 2021 as the Record Date for determining entitlement of Members to Final Dividend for the Financial Year Ended March 31, 2021. Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th July, 2021 to Thursday, 29th July 2021(both days inclusive) for the purpose of 36th Annual General Meeting of the Company. For Dhanuka Agritech Limited

JITIN SADANA Company Secretary/Compliance Officer

FCS-7612



BHAROSA APNO KA **HDFC Asset Management Company Limited**

A Joint Venture with Standard Life Investments CIN: L65991MH1999PLC123027 Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676

NOTICE

Fax: 022 22821144 • e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in the below-mentioned Scheme / Plan / Options of the Fund and has fixed Monday. July 12, 2021 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan / Options	NAV as on July 5, 2021 (₹ per unit)	Amount of Distribution (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)
Plan launched under HDFC Fixed Maturity	Plans ("FMP") - Se	eries 39:	
HDFC FMP 1183D April 2018 (1) - Regular Option - Normal IDCW Option	12.4758		10.0000
HDFC FMP 1183D April 2018 (1) - Direct Option - Normal IDCW Option	12.5764	Entire	
HDFC FMP 1183D April 2018 (1) - Regular Option - Quarterly IDCW Option	10.0960	Distributable Surplus#	
HDFC FMP 1183D April 2018 (1) - Direct Option - Quarterly IDCW Option	10.1036		

The entire distributable surplus at the time of maturity (i.e. on the Hecord Date) shall be distributed. Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Plan

would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Plan on the Record Date.

Unit holders who have opted to receive payout by way of physical instruments may experience delays on account of delivery constraints on the courier / postal services arising out of the unprecedented COVID-19 situation. Such Unit holders are advised to opt for payout through electronic mode(s) at the earliest due to the inherent benefits of such mode(s) such as convenience of the credit of the distribution proceeds into their bank account directly as also avoiding loss of payment instruments in transit or fraudulent encashment. Please arrange to send us a copy of a cancelled cheque of your bank account to have the electronic payout mode enabled.

Intimation of any change of address / bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centres of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



Nippon India Quarterly Interval

Nippon India Fixed Horizon Fund

Nippon India Credit Risk Fund

(Number of Segregated Portfolios

Nippon India Balanced Advantage

New Delhi

XXXX - Series 16

Fund

Mumbai

July 06, 2021

Place: Mumbai

Date : July 06, 2021



Authorized Signatory

(formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited) (CIN - L65910MH1995PLC220793) **Registered Office:** 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park,

Nippon Life India Asset Management Limited

Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 22 6808 7000 • Fax No. +91 22 6808 7097 • mf.nipponindiaim.com **NOTICE CUM ADDENDUM NO. 37**

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 5, 2020

on "Product Labeling in Mutual Fund schemes – Risk-o-meter", the Risk-o-meter of certain Scheme(s) of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") stand revised as under: Scheme Name **Existing Risk-o-meter Revised Risk-o-meter**

Fund-Series 2	Investors understand that their principal will be at Low risk	Riskometer Investors understand that their p will be at Low to Moderate ri
Nippon India Ultra Short Duration Fund (Number of Segregated Portfolio -1)	Investors understand that their principal will be at Moderate risk	Riskometor Investors understand that their pr will be at Moderately High ri
Nippon India Liquid Fund	of a Washington	Van Harmon House,
Nippon India Money Market Fund		
Nippon India Fixed Horizon Fund -XXXVIII- Series 5	Risk ometer Investors understand that their principal will be at Moderate risk	Riskometer Investors understand that their p will be at Low to Moderate ri
Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXVI - Series 2		
Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXVI - Series 8		
Nippon India Fixed Horizon Fund -XXXVIII- Series 2	Silver Control of the	
Nippon India Fixed Horizon Fund -XXXIX- Series 11	Riskometer Investors understand that their principal	Riskometer Investors understand that their p
Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 12	will be at High risk	will be at Moderately High ri



nvestors understand that their principal

will be at Very High risk



This addendum forms an integral part of Scheme Information Document and Key Information Memorandum of the Scheme(s) of NIMF and all the other terms and conditions of the aforesaid document read with the addenda issued from time to time will remain unchanged.

> For NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited) (Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

Authorised Signatory Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

> Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



DATE-July 07, 2021

Place:Gurugram

उत्तराखंड में नाराज मंत्रियों को मिले अहम विभाग

जनसत्ता संवाददाता देहरादून 6 जुलाई।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के सभी 11 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हुए अपने पास 15 विभाग रखे हैं। नाराज मंत्रियों सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग, हरक सिंह रावत को ऊर्जा तथा धन सिंह रावत को स्वास्थ

विभाग ऊर्जा विभाग और स्वास्थ विभाग मख्यमंत्री ने अपने पास नहीं रखे। मख्यमंत्री ने अपने पास कुल 15 विभाग रखे हैं जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ नियंत्रण, लघु सिंचाई, भारत-नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व एवं लोक निर्माण विभाग दिए हैं। हरक सिंह रावत को वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन,

मुख्य सचिव का पदभार संभाला एसएस संधू ने

देहरादून, 6 जुलाई

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की नौकरशाही में भारी भरकम परिवर्तन किया है। सोमवार को उन्होंने राज्य के मुख्य

कथा आयुष शिक्षा तथा ऊर्जा विभाग, बंशीधर

भगत को विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य,

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी

विकास आवास तथा सूचना एवं विज्ञान

प्रौद्योगिकी, यशपाल आर्य को परिवहन, समाज

कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, निर्वाचन तथा

आबकारी, बिशन सिंह चफाल को पेयजल,

ग्रामीण निर्माण, जनगणना, सुबोध उनियाल को

कृषि एवं कृषक कल्याण, अरविंद पांडे को

विद्यालय शिक्षा (बेसिक), विद्यालय शिक्षा

(माध्यमिक), खेल एवं युवा कल्याण,

पंचायतीराज एवं संस्कृत शिक्षा,गणेश जोशी को

सचिव पद से ओम प्रकाश की विदाई करके एसएस संधु को मुख्य सचिव बनाया था। ओम प्रकाश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मंगलवार को संधू ने मुख्य सचिव का पदभार ओम प्रकाश से लिया।

सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, धन सिंह रावत को सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन तथा स्वामी यतीश्वरानंद को भाषा, पनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा ग्राम्य विकास विभाग दिए गए है। भाजपा सरकार में पहली बार ग्राम्य विकास मुख्यमंत्री ने अपने पास न रख कर अपने सबसे भरोसे के मंत्री

Sd/ Authorised Officer

JOHAL INVESTMENTS LTD.

स्वामी यतीश्वरानंद को दिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने पटोले के फोन टैपिंग की उच्चस्तरीय जांच की घोषणा की

मुंबई, 6 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल ने कांग्रेस विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के इन आरोपों पर उच्चस्तरीय जांच की मंगलवार को घोषणा की कि पर्ववर्ती भाजपा नीत राज्य सरकार में उनका फोन टैप किया गया था। पटोले ने इस साल की शरुआत में आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस नीत पर्ववर्ती सरकार में 2016-17 में उनके साथ ही राकांपा, भाजपा और शिवसेना के अनेक महत्त्वपूर्ण नेताओं और कई आइएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के फोन की टैपिंग कराई गई।

कांग्रेस ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। पाटिल ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि इस मुद्दे

JOHAL INVESTMENTS LTD

जोहाल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड

RZ F-1,OFFICE NO-5,VIJAY ENCLAVE, SHIV MAIN MARKET, NEW DELHI -110045

AUCTION NOTICE / निलामी सुचना

JOHAL INVESTMENTS LTD

Whereas, The authorized officer of Johal Investments limited, hereby gives to the customers and the public

in general that the respective banks will conduct the private sale/ auction of the gold for the underlying loan

numbers / GL numbers when deemed necessary since the customer had failed to repay the amount within the due date or had failed to remit the margin amount required as per the communication sent by the bank

or their authorized representatives Auction date 9 July 2021 evening 4.30pm

and place Johal investments Ltd WZ-184-D Palam Goal Chakkar Palam New Delhi-110045

Please contact 9990106527 for more information

JOHAL INVESTMENTS LTD

जबकि जोडाल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी एतद्वारा ग्राहकों और जनता को सामान्य रूप् से सुचित करते हैं कि

संबंधित बैंक जब आवश्यक समझेगी तब अंतर्निहित लोन नंबर/जीएल के लिए सोने की निजी बिक्री/निलामी का संचालन

करेगी क्योंकि ग्राहक देय तिथि के भीतर राशि चुकाने में विफल रहा है या बैंक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजी गई

सूचना के अनुसार अतिरिक्त राशि को जमा करने में विफल रहा है। अधिक जानकारी के लिए कुपया 9990106527 पर संपर्क

करें। निलामी तिथि 9 जुलाई 2021 समय 4.30 सांय और स्थान जोहाल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड डब्लुजेड-184डी, पालम गोल

चक्कर, पालम, नई दिल्ली-110045 अधिक जानकारी के लिए फोन: 9990106527

LIST OF GOLD LOAN NUMBER / स्वर्ण ऋण लोन संख्या

PALAM BRANCH -JIL/GL/PLM/40015, JIL/GL/PLM/40017, JIL/GL/PLM/40019, JIL/GL/PLM/40027, JIL/GL/PLM/40028, JIL/GL/PLM/40031, JIL/GL/PLM/40032,

VIJAY ENCLAVE - JIL/GL/VIJ/ 20009, JIL/GL/VIJ/20026, JIL/GL/VIJ/20036

BUDDH VIHAR - JIL/GL/W1/50095, JIL/GL/W1/50098, JIL/GL/W1/50033, JIL/GL/W1/50042,

JIL/GL/W1/50054, JIL/GL/W1/50067, JIL/GL/W1/50081, JIL/GL/W1/50055, JIL/GL/W1/50060,

JIL/GL/W1/50088, JIL/GL/W1/50094, 1065LB01DL

की विस्तार से जांच होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र में सदन में पेश की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से टेलीफोन बातचीत पर निगरानी रखने की अनुमति मांगते समय फोन नंबर और कारण बताने होते हैं।

राज्य के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने पृछा कि कितने विधायकों पर निगरानी रखी गई। पटोले ने पूछा कि किसके निर्देशों पर फोन टैप कराए गए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पुलिस ने इस बहाने से उनके फोन को टैप किया कि यह अमजद खान नामक व्यक्ति का है जो मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त है।

अधिकृति अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज

जोहल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड

उपमुख्यमंत्री के बेटे की कार की चपेट में आने से किसान की मौत

बागलकोट, ६ जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक के बागलकोट जिले के हुंगुंड में उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के बेटे की कार की कथित चपेट में आने से 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई।

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि चिदानंद सावदी गाड़ी में पीछे बैठे थे और उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना स्थल पर रिकार्ड किए गए वीडियो को अपने मोबाइल फोन से हटाने, नहीं तो परिणाम भूगतने की धमकी दी। हालांकि, सावदी ने इस आरोप से इनकार किया है।

पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब किसान कुडलेप्पा बोली सोमवार शाम अपनी बाइक से घर लौट रहा था। घायल किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के

रिश्तेदार की शिकायत पर मौके पर मौजूद कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जिला पलिस अधीक्षक लोकेश जगलासर ने बताया कि हमने कार को जब्त कर लिया है और चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस बीच, मृतक के दामाद मंगलप्पा ने आरोप लगाया कि चिदानंद कार चला रहे थे। उसने सावदी के बेटे पर अपने घायल ससुर को समय पर अस्पताल नहीं ले जाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि मेरे ससूर के सिर और पीठ में चोटें आईं। वह वहीं पड़े हुए थे। उन्हें कुछ इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि चिदानंद ने स्वीकार किया कार उनकी थी. लेकिन उन्होंने इस आरोप से इनकार किया कि वह

ट्रान्सफोर्मर के सामने, बेगमपुर गाँव, दिल्ली-110086

गाडी चला रहे थे।

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 12.4.2021 जारी कर ऋणधारक श्री/मै. पंडित सिक्युरिटी सर्विस, प्रॉप. सुरेन्दर कुमार शर्मा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.3.2021 को रु. 531103/- (रुपये पांच लाख इक्कतीस हजार एक सौ तीन मात्र) के साथ भूगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर उस पर आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को

सूचित किया जाता है कि आज, 2 जुलाई, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु

531103/- (रुपये पांच लाख इक्कतीस हजार एक सौ तीन मात्र) के साथ भगतान की तिथि तक अनबंधित दर पर उस पर आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे के लिये बैंक ऑफ बडौदा के चार्ज के अधीन

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

नरेला, डीडीए आवासीय योजना, नरेला, दिल्ली-110040 की ले-आउट योजना में स्थित ब्लॉक-IV, पॉकेट-11, सेक्टर ए-6 में तीसरे तल पर फ्रीहोल्ड डीडीए निर्मित जनता फ्लैट सं. 233, एरिया माप 18 वर्ग

गएडा सांफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड की आस्तियों हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

सीआईएन : U72200DL1999PLC098726 (परिसमापनाधीन कम्पनी) परिसमापक : श्री आलोक कुमार अग्रवाल

पंजीकृत कार्यालय : सिंधिया विला, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110023 ई-मेल आईडी : nstpl@ascgroup.in ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री

परिसमापनाधीन कम्पनी के आइस्तयों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है। ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 4 अगस्त, 2021 को 2.00 बजे अप. भा.मा.स. से 3.00 बजे अप.

भा.मा.स. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)

ब्लॉक	आस्तियाँ	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि (रु.	वृद्धि राशि (रु
		(रु. लाख में)	लाख में)	लाख में)
क	1. ग्रेटर नोएडा यूनिट में भूमि	1. 1118.12		
	2. संयन्त्र एवं मशीनरी	2. 370.19		
	3. प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय आस्तियाँ	3. 29.45		
	4. ग्रेटर नोएडा यूनिट में भवन का स्क्रैप	4. 8.15		
		कुल : 1525.91	152.59	10.00
ख	ग्रेटर नोएडा यूनिट में भूमि	1118.12	111.81	10.00
ग	संयन्त्र एवं मशीनरी	370.19	37.01	10.00
घ	प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय आस्तियाँ	29.45	2.94	1.00
ङ	ग्रेटर नोएडा यूनिट में भवन का स्क्रैप	8.15	0.81	0.50

नोट : पुनः उपर्युक्त बिक्री ''**इक्विपो सर्विसेज लिमिटेड**'' की वेबसाइट पर अपलोड प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखि नियम एवं शर्तों के अध्यधीन है। विवरण के लिए कृपया www.iquippo.com अथवा www.nstpl.co देखें संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 28 जुलाई, 2021

ई-नीलामी की तिथि : 4 अगस्त, 2021 (बुधवार) **सम्पर्क नं**. : 8447079462 (सुश्री महिमा तुलसियान)

एस्केलेशन : यदि उपर्युक्त फोन नम्बर पर पूछताछ का उत्तर नहीं मिलता है तो +91-9711191523 पर ह्वाट्सएए

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :

 ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता ''इक्विपो सर्विसेज लिमिटेड'' के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है'', ''जो यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर संचालित की जायेगी। 2. कम्पनी की आस्तियों के विषय में पूर्ण तथा विस्तृत सूचना दस्तावेज के परिशिष्ट-VI के अनुसार ''ई-नीलार्म

प्रक्रिया दस्तावेज'' में उपलब्ध है जो वेबसाइट अर्थात www.iquippo.com पर उपलब्ध है। पूर्ण सूचना प्राप करने के लिए यह बिक्री सूचना ''ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज'' के साथ पढ़ी जानी चाहिए। 3. ऑनलाइन नीलामी बिक्री के आस्तियों, ऑनलाइन ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं वचन प्रपत्र, सामान्य नियम एवं शर्तों सहित पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट www.iquippo.com पर उपलब्ध हैं। सम्पर्क करें श्री प्रेमसुख, +91-8860041888 तथा premsukh@iquippo.com (लिंक www.iquippo.com प जाकर) इच्छुक संविदाकार को निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करते हुए उल्लिखित कम्पर्न को सर्च करना होगा: (I) कम्पनी का नाम (नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड), अथवा (II) राज्

4. (क) यदि ब्लॉक क हेतु न्यूनतम एक पात्र संविदाकार है तो अन्य सभी ब्लॉकों हेतु ई–नीलामी निरस्त कर दी जायेर्ग और अन्य सभी ब्लॉकों हेतु प्राप्त ईएमडी, यदि कोई हो, सम्बन्धित संविदाकारों को वापस कर दी जायेगी; (ख) यदि ब्लॉक क हेत कोई पात्र संविदाकार नहीं है तो ब्लॉक ख, ग, घ तथा ङ की ई-नीलामी व्यक्तिगत रूप

5. इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के ऋणभारों, सम्पत्ति के स्वामित्व, बकाय स्थानीय करों. बिजली तथा पानी के प्रभारों. रखरखाव प्रभारों, लाइसेंसों, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में अपनी स्वतन पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा अपने व्यय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए और स्वयं को सन्तुष्ट कर लेन

चाहिए। उपर्युक्त सम्पत्तियों का साइट पर निरीक्षण संभावित संविदाकारों द्वारा 8447079462 (सुश्री महिम तुलसियान) से पूर्व अनुमित लेकर किया जा सकता है। 6. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ''नोएड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, परिसमापनाधीन'', खाता सं.: 0602002100319936, पंजाब नैशनल बैंक, न

दिल्ली, शाखा : ओखला, आईएफएससी कोड : PUNB0060200 में या किसी अनुसूचित बैंक से आहरित ''नोएड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, परिसमापनाधीन'' के नाम पर डीडी के माध्यम से जमा करनी होगी अथव सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में प्रदत्त के अनुसार प्रारूप क अथवा प्रारूप ख के अनुसार ईएमडी राशि हेर् 7. इच्छुक संविदाकारों को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पते के प्रमाण (3)

पैन कार्ड, (4) वैध ई–मेल आईडी (5) लैंडलाइन या मोबाइल फोन नम्बर, (6) परिशिष्ट 1 के अनुसार शपथपर तथा वचन-पत्र, (७) परिशिष्ट II के अनुसार संविदा आवेदन प्रपत्र, (८) परिशिष्ट III के अनुसार संविदाकार द्वार घोषणा-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति सहित ईएमडी अथवा बैंक गारंटी जमा का प्रमाण और निवेदन पत्र जमा करने होंगे, इन परिशिष्टों का प्रारूप सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिए जा सकते हैं। ये दस्तावेज परिसमापक वे कार्यालय में या ई-मेल द्वारा नीचे दिये गये पते पर 28 जुलाई, 2021 को 7.00 बजे अप. से पूर्व जमा करने होंगे। 8. ई-नीलामी में पोर्टल (www.iquippo.com) पर भाग लेने हेतु पात्र संविदाकारों के नाम का निर्धारण परिसमापक द्वारा किया जायेगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (इक्विपो सर्विसेज लिमिटेड) पात्र संविदाकारों को यूज आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेंगे।

9. यदि संविदा ई-नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही असीमित विस्तार के साथ 5 मिनटों के लिए बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के समय उच्चतम बोली (आरक्षित मुल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

10. सफल संविदाकार की ईएमडी बिक्री वसूली के भाग के रूप में रख ली जायेगी और संविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। परिसमापव सफल संविदाकार को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करेंगे और सफल संविदाकार को बिक्री राशि की बिक्री वसली की शेष राशि (सफल संविदा राशि - ईएमडी राशि) परिसमापक द्वारा एलओआई के निर्गमन के 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। एलओआई में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सफल संविदाकार द्वारा शेष राशि जमा करने में चुक करने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि (ईएमडी + कोई अन्य राशि) जब्त कर ली

11. सफल संविदाकार को नीलामी पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प ड्यूटी/हस्तान्तरण प्रभार, शुल्क आदि तथा समस्त स्थानीय करों, डयटी, दरों, अभिनिर्धारण प्रभारों, शल्कों आदि का वहन करना होगा। 12. परिसमापक को कोई या सभी प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी क स्थगित/आस्थगित/निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में नीलामी कार्यवाही से किसी सम्परि

या उसके किसी भाग को आहरित करने का पूर्ण अधिकार है। 13. सम्पूर्ण बिक्री वसूली के भुगतान के पश्चात बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध केवल सफल संविदाकार के नाम में जारी

किया जायेगा और किसी अन्य के नाम में जारी नहीं किया जायेगा। 14. यह बिक्री ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत निर्मित विनियमों के प्रावधानों वे

15. इच्छुक संविदाकार(रों) को कम्पनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों के ड्यू डिलिजेंस संचालित करने के क्रम में परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कम्पनी द्वारा संस्थापित तथा अनुरक्षित डाटा रूम (''डाटा रूम'') की पहुंच प्रदान की जायेगी। इच्छक संविदाकारों को ई-नीलामी तिथि तक डाटा रूम में सचना का एक्सेस उपलब्ध कराया जायेगा

इच्छुक संविदाकारों द्वारा डाटा रूम में सुचना तक पहुँच तथा उपयोग समय-समय पर परिसमापक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। 16. ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 4 अगस्त, 2021 (बुधवार) को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. तक (मिनट के असीमित विस्तार सहित)

आलोक कुमार अग्रवाल

नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड-परिसमापनाधी आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137 पत्राचार का पता : सी-100, सेक्टर-2, नोएडा, उ.प्र.-20130

प्री में निकलेगी जगन्नाथ

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 जुलाई।

संक्रमण को देखते हुए इजाजत नहीं दी थी। इस साल भी उसी याचिका में कुछ अर्जियां देकर रथ यात्रा को पुरी के अलावा बारीपदा, केंद्रपाडा और ससांग जैसे दुसरे शहरों में भी निकालने की इजाजत

ओडीशा सरकार ने जगन्नाथ साल भी अदालत ने सारे राज्य में दूसरे स्थानों पर इसे ले जाने पर पाबंदी लगाई है।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड कार्यालय का पता : प्रशासनिक भवन, चेम्बूर, मुंबई - 400 074, महाराष्ट्र, भारत, **दूरध्वनी** : 00 91 22 2552 2478 | 2242 | 2325 | 2808 फॅक्स : 00 91 22 2552 2320, CIN-L24110MH1978GOI020185 वेण्डरों की वैश्विक पूर्व-योग्यता पोटाश का म्युरिएट DC/MR/PQN/MOP:21413 पोटाश के म्यूरिएट (भारतीय एफसीओ के अनुसार) की थौक में आपूर्ति के लिये वेण्डरों की पूर्व-योग्यता के लिये निर्माताओं/व्यवसायिओं से मुहरबंद आवेदन आमंत्रित है। बंद होने की तिथि एवं समयः 10.8.2021 के 17.00 बजे आईएसटी तक। पूर्व-योग्यता के लिये सम्पूर्ण विवरण आरसीएफ की वेबसाईटः www.rcfltd.com पर ट्राम्बे टेण्डर्स में उपलब्ध है। उप महा प्रबंधक (वाणिज्य)

DHANUKA AGRITECH LIMITED

CIN: L24219DL1985PLC020126

Regd. Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi 110 005 Phone No.: 011-2353 4551-52

Corporate Office: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram-122 002

Closure and Record Date for the purpose of dividend for the F.Y 20-21

The Annual Report 2020-21 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 36th AGM is available on the website of the Company at www.dhanuka.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Wednesday, 28th July, 2021 (IST 5.00 p.m.) The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, 22nd July, 2021 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/

c. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact to Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr.Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542, as provided by CDSL. A person who is not a Member as on the

d. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically,

but shall not be entitled to vote again.

Login type	Helpdesk details		
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.comor contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.		
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at tol free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30		

Pursuant to the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Company has fixed Friday, July 16, 2021 as the Record Date for determining entitlement of Members to Final Dividend for the Financial Year Ended March 31, 2021. Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th July, 2021 to Thursday, 29th July 2021(both days inclusive) for the purpose of 36th Annual General Meeting of the Company.

For Dhanuka Agritech Limited

JITIN SADANA

Company Secretary/Compliance Officer FCS-7612

ऐक्सिस बैंक आधिपत्य नोटिस रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010 कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025 रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006 जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस

एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की घारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह—ऋणी / बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम

क. सं.	ऋणी / सह—ऋणी / जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा (ऋणी), पुत्र शिव चरन शर्मा निवासी मकान नं0 2548, ब्रह्मणपुरी कोसीकलां मधुरा उ०प्र 281403	रिथत प्लाट नं0 15, जलकर संस्थान परिषद, कोसीकलां तहसील छत्ता जिला मधुरा उ०प्र 281403	रू.16,00,515.00 दिनांक 29.12.2020 + देय ब्याज व अन्य खर्चे
	एवं : द्वारा श्री राधारानी ट्रेडिंग क0 निकट जिन्दल स्कूल, तोमर धरमकांटा के सामने, नन्द गाँव रोड कोसीकलां मधुरा उ०प्र 281403	होत्रफल : 75.00 वर्ग मी0 चौहद्दी: पूर्व : प्लाट नं0 14, पश्चिम : प्लाट नं0 16, उत्तर : सडक	देय सूचना की तिथि : 30.12.2020
	श्रीमरी कर्त्यना शर्मा (सह—ऋणी) पत्नी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा निवासी मकान नं0 2548, ब्रह्मणपुरी कोसीकलां मधुरा उ०प्र 281403	दक्षिण : अन्य की भूमि	कब्जा दिनांक : 02.07.2021
2	श्री अरविन्द कुमार (ऋणी), पुत्र श्री नरेश पाल निवासी सी.आई.आर.जी. मखदूम फरहा, बक्लपुर फरहा, मथुरा		रू.19,27,930.00 विनांक 17.04.2021 + देय ब्याज व अन्य खर्षे
	उत्तर प्रदेश, भारत-281122 एवं : निवासी नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन प्राठ लिठ, राधिका विहार द्वितीय निकट सांई मन्दिर, मण्डी चौराहा, मथुरा, उठप्रठ	क्षेत्रफल : 89.05 वर्ग मी0 चौडद्दी: पूर्व : विक्रेता का मकान (श्रीमती लता शर्मा एवं बांके बिहारी शर्मा)	देय सूचना की तिथि : 20.04.2021
	281001 श्री नरेश पाल (सह—ऋणी) पुत्र श्री गिरधारी लाल निवासी सी.आई.आर.जी. मखदूम फरहा, बक्लपुर फरहा, मथुरा उत्तर प्रदेश, भारत—281122	पूर्व : विक्रेता का मकान (श्रीमती लता शर्मा एवं बांके बिहारी शर्मा) पश्चिम : सड़क, उत्तर : मकान नं0 33 दक्षिण : विक्रेता का मकान (श्रीमती लता शर्मा एवं बांके बिहारी शर्मा)	कब्जा दिनांक : 02.07.2021
3	श्री अशोक भरद्वाज (ऋणी), पुत्र शिव दीन भरद्वाज निवासी गिरराज धाम कालोनी धोरेरा वृन्दावन निकट वी.पी.एस.	स्थित प्लाट नं0 36, खसरा नं0 78, मौजा घेरिया बांगर वृन्दावन मधुरा उ०प्र 281301 क्षेत्रफल : 167.40 वर्ग मी0	रू. 26,04,190.00 दिनांक 17.04.2021 + देय ब्याज व अन्य खर्च
	स्कूल जिला मथुरा उत्तर प्रदेश, 281301 श्रीमती राघा (सह—ऋणी) पत्नी अशोक भरहाज	पूर्व : रास्ता 18 फुट बौड़ा पश्चिम : प्लाट नं0 13, ो धोरेरा वृन्दावन निकट वी.पी.एस. उत्तर : प्लाट नं0 35	देय सूचना की तिथि : 20.04.2021
	निवासी गिरराज धाम कालोनी धोरेरा वृन्दावन निकट वी.पी.एस. स्कूल जिला मधुरा उत्तर प्रदेश, 281301		कब्जा दिनांक : 02.07.2021
4	श्री हरीश चन्द सिंह (ऋणी) पुत्र रतन सिंह निवासी मकान नम्बर—28, ग्राम मंगोरा मधुरा उत्तर प्रदेश, 281001 एवं द्वारा मेसर्स कनक कान्ट्रक्टर 42, सदर, कैन्ट, निकट बसन्तर मार्ग, मधुरा, उत्तर प्रदेश, 281001 (स्थत प्लाट नं0 6, खसरा नं0 42, मीजा नवार तातवदर्शी वाटिका, जिला मथुरा, उ०प्र 28100 क्षेत्रफल : 264.00 वर्ग मी0 वौहद्दी: पूर्व : प्लाट नं0 7 पश्चिम : प्लाट नं0 5,		क. 26,20,991.00 दिनांक 17.04.2021 + देय ब्याज व अन्य खर्च
		चीहद्दीः पूर्वः प्लाट न० ७ पश्चिमः प्लाट नं० ५, उत्तरः रास्ता कालोमी	देय सूचना की तिथि : 20.04.2021
	पत्नी हरीश चन्द सिंह निवासी मकान नम्बर–28, ग्राम मंगोरा मधुरा उत्तर प्रदेश, 281301	दक्षिण : प्लाट न० ८	कब्जा दिनांक : 02.07,2021
5	श्री नितिन शर्मा (ऋणी) पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा श्री जय प्रकाश शर्मा (सह—ऋणी) पुत्र श्री दीना नाथ शर्मा	स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने, 45 जगन्नाथपुरी कृष्ण जन्मस्थान मूटेश्वर रोड , उत्तर प्रदेश–281001 क्षेत्रफल: 127.74 वर्ग मी0	रू. 1,25,69,344.00 दिनांक 17.04,2021 + देय ब्याज व अन्य खर्च
	श्री अमित शर्मा (सह—ऋणी) पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा पूर्व : श्रीमती कुमकुम का मकान	पूर्व : श्रीमती कुमकुम का मकान	देय सूचना की तिथि : 20.04.2021
	श्रीमती करूणा शर्मा (सह—ऋणी) पत्नी श्री अमित शर्मा निवासी श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने, 45 जगन्नाथपुरी कृष्ण जन्मस्थान भूटेश्वर रोड , उत्तर प्रदेश—281001	पश्चिम : राम रतन शर्मा का मकान, उरत्तर : विक्रेता की शेष सम्पत्ति, व्य दक्षिण : 30 फुट चौड़ी सड़क	कब्जा दिनांक : 02.07.2021
6	श्री राकेश कुमार उपाध्याय (ऋणी) पुत्र हरस्वरूप उपाध्याय श्रीमती सुरभी उपाध्याय (सह—ऋणी) पत्नी राकेश कुमार उपाध्याय निवासी म0नं0 38, टीथर्स कालोनी महोली रोड मथुरा	स्थित मकान नम्बर 10, टीयर्स कालोनी खसरा नं0 2919, निकट माहोली रोड मथुरा, 281004 क्षेत्रफल : 333.15 वर्ग मी0 चौहद्दी: पूर्व : प्लाट नं0 20 पश्चिम : 30 फुट चौड़ा रास्ता उत्तर : प्लाट नं0 9 दक्षिण : प्लाट नं0 11	रू. 51,29,150.00 दिनांक 17.04.2021 + देय ब्याज व अन्य खर्च
			देय सूचना की तिथि : 20.04.2021
			कब्जा दिनांक : 02.07.2021
7	त्री शिव शंकर गौतम (ऋणी), पुत्र रमेश चन्द गौतम निवासी मुठनंठ 18 ई. जनकपुरी महोली रोड कृष्णा नगर मधुरा	स्थित प्लाट नं0—99, साउथ पार्ट राधिका इन्क्लेय कालोनी खसरा नं0—138, मथुरा	क. 21,17,855.00 दिनांक 17.04,2021 +

281004, चत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 281001 भारत एवं : द्वारा कृष्णा इलेक्ट्रो प्लाटर्स, गली नं० ६, प्लाट नं०-५, क्षेत्रफल : 166.70 वर्ग मी० जनकपुरी महोली रोड कृष्णा नगर मधुरा उ०४०– 281001 मारत श्रीमती विमला गौतम (सह—ऋणी), प्रत्नी शिव शंकर गौतम पूर्व : मधुरा गोवर्धन रोड निवासी म0नं0 18 ई. जनकप्री महोली रोड कृष्णा नगर मध्रा पश्चिम : प्लाट नं0 96 एवं 95 माग उत्तर प्रदेश 281001 भारत उत्तर : प्लाट नं0 99 का उत्तरी साईट का भाग एवं : मेसर्स गौतम बटीक कार्नर, जनकपुरी महोली रोड मधुरा दक्षिण: प्लाट नं० 98 उत्तर प्रदेश 281001 श्री यशवंत सिंह (ऋणी) रिधत म0नं0-140, गोधोलीपुरम एक्टेन्शन, निकट तिराहा, वृन्दावन -281121 पुत्र श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह निवासी म0नं0-140, गोधोलीपुरम एक्टेन्शन, निकट तिराहा, जोकि आशा सिंड के नाम न्दावन -281121 क्षेत्रफल : 133.77 वर्ग मी० श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह (सह-ऋणी) चौहददीः पूर्वः सडक पुत्र श्री महाराज बक्श सिंह पश्चिम : प्लाट नम्बर 163 निवासी म0नं0-140, गोधोलीपुरम एक्टेन्शन, निकट तिराहा, खत्तर : प्लाट नम्बर 141 वृन्दावन -281121 दक्षिण : प्लाट नम्बर 139

एवं : द्वारा परमेश्वरी देवी धानुक सरस्वती विद्यामन्दिर सीनियर सेक्डरी रकल, वन्दावन, निकट मन्दिर, मधरा 281121 श्रीमती आशा सिंह (सह-ऋणी), पत्नी श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह निवासी म0नं0-140, गोंधोलीपुरम एक्टेन्शन, निकट तिराहा, वृन्दावन -281121

तिथि : ७ जुलाई, २०२१

www.readwhere.com

Dated: 05.07.2021

Place: Gurugram (Haryana)

जैसे भारी-भरकम विभाग दिए गए हैं। पहली बार भाजपा सरकार में लोक निर्माण

श्रम, कौशल विकास एवं सेवायोजन, आयुष

गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत की शरण में पहुंचे विधायक

नैनीताल, 6 जुलाई (भाषा)।

सुनवाई होगी।

बलात्कार का आरोप झेल रहे उत्तराखंड के भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है। राठौर के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि सीमवार को दायर की गई उनकी याचिका पर अगले कुछ दिनों में

हरिद्वार जिले के ज्वालापर से विधायक राठौर के खिलाफ पार्टी की एक पूर्व महिला नेता ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए उन पर एक जुलाई को मामला दर्ज कराया था। हरिद्वार की एक निचली अदालत के आदेश के बाद बहादराबाद थाने में दर्ज मामले में विधायक पर बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने की धाराएं लगाई गई हैं। महिला ने अपनी तहरीर में कहा है कि विधायक राठौर से उसकी मुलाकात

ढाई साल पहले हुई थी।

रथ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट

सप्रीम कोर्ट ने ओडीशा में परी की ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा को सारे प्रदेश में निकालने की इजाजत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अदालत ने पुरी के जगन्नाथ

मांगी थी। मंदिर के आसपास ही यात्रा को यात्रा को 12 जुलाई को केवल पुरी निकालने की इजाजत दी। पिछले में ही निकालने की इजाजत दी है। इस यात्रा को निकालने की कोरोना

स्माध्य बर्दे सम्मृध्यि वडी ओह

Phone No.: 0124-4345000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.com

Notice of 36th Annual General Meeting, Remote E-Voting, Book

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Thursday, 29th July, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members. In compliance with these MCA Circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/15 dated 15th January 2021 issued by the SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Company has sent the Notice of the

36th AGM along with the Annual Report 2020-21 on Monday, 05th July, 2021, through electronic mode to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the

Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com.

Commencement of remote e-Voting Monday, 26th July, 2021 (IST 9.00 a.m.) End of Remote e-voting electronically beyond the said date and time;

Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login Inzw has 1200 a j vrotisanen Annual

दिनांक : 07.07.2021

स्थान : लखनऊ

(प्रा0 अधिकारी)

एक्सिस बैंक लि0

देय ब्याज व अन्य खर्चे

देय सूचना की तिथि :

20.04.2021

कब्जा दिनांक :

02.07.2021

₹. 1,42,718.00 एवं

₹ 13,15,914.00

विनांक 17.04.2021 न

देय ब्याज व अन्य खर्च

देय सूचना की तिथि :

20.04.2021

कब्जा दिनांक :

02.07.2021

स्थान : गुरुग्राम

ई-मेल आईडी : nstpl@ascgroup.in